

**CLASS : 12th (Sr. Secondary)**  
**Series : SS-M/2018**

**Code No. 3629**

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : B**

## रसायन विज्ञान

### CHEMISTRY

[ Hindi and English Medium ]

**ACADEMIC/OPEN**

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

*Time allowed : 3 hours]*

*[ Maximum Marks : 60 ]*

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित प्रश्न 18 हैं।

*Please make sure that the printed question paper are contains 18 questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर तथा सेट को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

*Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.*

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।

*Don't leave blank page/ pages in your answer-book.*

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

*Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

( 2 )

**3629/(Set : B)**

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

---

### **सामान्य निर्देश :**

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- प्रश्न संख्या 1 में बारह (i - xii) बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक 1 अंक का है। जिनके सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- प्रश्न संख्या 2 से 10 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 शब्दों में दीजिए।
- प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है।

### **General Instructions :**

- All questions are compulsory.
- Marks for each question are indicated against it.
- Question Number 1 consists of twelve (i-xii) multiple choice questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the correct answer in their answer-book.

**3629/(Set : B)**

- (iv) Question Numbers **2** to **10** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers **11** to **15** are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about **40** words each.
- (vi) Question Numbers **16** to **18** are long answer type questions of 5 marks each. Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in all long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

1. (i) कौन सा विटामिन जल में विलेय है ? 1

- (A) विटामिन D      (B) विटामिन K  
 (C) विटामिन E      (D) विटामिन B

Which Vitamin is soluble in water ?

- (A) Vitamin D      (B) Vitamin K  
 (C) Vitamin E      (D) Vitamin B

(ii) एक मोल  $MnO_4^-$  को  $Mn^{2+}$  में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे (F) की

आवश्यकता होगी ? 1

- (A) 5F      (B) 2F  
 (C) 1F      (D) 7F

Number of Faradays (F) required to reduce 1 mole of  $MnO_4^-$  into

$Mn^{2+}$ .

**3629/(Set : B)**

(A) 5F (B) 2F (4)

(C) 1F (D) 7F

(iii) निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।  
 $K = 2.6 \times 10^{-4} L \text{ Mol}^{-1} \text{ S}^{-1}$ :

- (A) प्रथम (B) शून्य  
(C) द्वितीय (D) कोई भी नहीं

Identify the order of Reaction from  
constant  $K = 2.6 \times 10^{-4} L \text{ Mol}^{-1} \text{ S}^{-1}$  :

the given rate

- (A) First (B) Zero  
(C) Second (D) None of these

(iv) मोलर चालकता की इकाई है :

1

- (A)  $\text{ohm}^{-1} \text{ m}^2 \text{ mol}^{-1}$   
(B)  $\text{ohm m}^2 \text{ mol}^{-1}$    
(C)  $\text{ohm}^{-1} \text{ m}^2 \text{ mol}$   
(D)  $\text{ohm}^{-2} \text{ m}^2 \text{ mol}^{-1}$

The units of molar conductivity are :

- (A)  $\text{ohm}^{-1} \text{ m}^2 \text{ mol}^{-1}$   
(B)  $\text{ohm m}^2 \text{ mol}^{-1}$   
(C)  $\text{ohm}^{-1} \text{ m}^2 \text{ mol}$

**3629/(Set : B)**

( 5 )

**3629/(Set : B)**

(D)  $ohm^{-2} m^2 mol^{-1}$

(v) निम्नलिखित में से द्विकारकीय अम्ल कौन-सा है ? 1

- (A)  $H_3PO_4$       (B)  $H_3PO_3$   
 (C)  $H_3PO_2$       (D)  $HClO_4$

In the following which is dibasic acid ?

- (A)  $H_3PO_4$       (B)  $H_3PO_3$   
 (C)  $H_3PO_2$       (D)  $HClO_4$

(vi) निम्नलिखित में प्रबलतम अम्ल कौन है ? 1

- (A)  $CH_3CH_2COOH$  (B)  $CH_3COOH$   
 (C)  $C_6H_5COOH$  (D)  $C_6H_5CH_2COOH$

In the following strongest acid is :

- (A)  $CH_3CH_2COOH$  (B)  $CH_3COOH$   
 (C)  $C_6H_5COOH$  (D)  $C_6H_5CH_2COOH$

(vii)  $(CH_3CH_2)_2NCH_3$  यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। 1Write IUPAC name of the compound  $(CH_3CH_2)_2NCH_3$ .

(viii) निम्न ऐल्किल हैलाइडों में सबसे कम क्वथनांक किसका होगा ? 1

- (A)  $C_2H_5F$       (B)  $C_2H_5I$   
 (C)  $C_2H_5Cl$       (D)  $C_2H_5Br$

In the given Alkyl halides which one has minimum boiling point ?


**3629/(Set : B)**

P. T. O.

**3629/(Set : B)**

- (A)  $C_2H_5F$       (B)  $C_2H_5I$   
 (C)  $C_2H_5Cl$       (D)  $C_2H_5Br$

(ix) निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में लिखिए : 1




Write the increasing of strongest basicity of the following :



(x)  $CH_3C \equiv N \xrightarrow{H_2 / Ni}$  P, P क्या है ? 1

- (A)  $CH_3CH_2NC$       (B)  $CH_3CH_2NH_2$   
 (C)  $CH_3NHCH_3$       (D)  $CH_3NH_2$



- (A)  $CH_3CH_2NC$       (B)  $CH_3CH_2NH_2$

(C)  $CH_3NHCH_3$



(xi) निम्न में से कौन-सा क्षारक RNA में है और DNA में नहीं ?

1

- (A) यूरेसिल      (B) साइटोसीन  
 (C) ग्वानीन      (D) थायमीन

Which base is present in RNA but not in DNA ?

- (A) Uracil      (B) Cytosine  
 (C) Guanine      (D) Thymine

**3629/(Set : B)**

( 7 )

(xii) रक्त के थकके जमने के लिए कौन सा विटामिन होता है ? 1

(A) विटामिन  $B_1$       (B) विटामिन D

(C) विटामिन K      (D) विटामिन C

The Vitamin responsible for the coagulation of blood is :

(A) Vitamin  $B_1$       (B) Vitamin D

(C) Vitamin K      (D) Vitamin C

**2.** ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु औषध क्या हैं ? इसका एक उदाहरण कीजिए। 2What are broad spectrum drugs ? Give **one** example.**3.**  $n$  -प्रकार और  $p$  - प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग लिखिए। 2Give applications of  $n$ -type and  $p$ -type semiconductors.**4.** निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए :

(a) हेनरी नियम



(b) राउल्ट नियम

2

Define the following :

(a) Henry's Law

(b) Raoult's law

**5.** प्रतिचुबकत्व व लोहचुम्बकत्व पदार्थों को परिभाषित कीजिए। 2

Define Diamagnetic and Ferromagnetic substance.

( 8 )

**3629/(Set : B)**

**6.** संक्षारण किसे कहते हैं ? इसकी रोकथाम के लिए दो उपाय लिखिए। 2

What is Corrosion ? Give **two** methods to prevent if.

**7.** बूना-N व बूना-S के एकलकों के मध्य अन्तर लिखिए। 2

Differentiate between the monomers of Buna-N and Buna-S.

**8.** फीनॉल, ऐथेनाल से अधिक अम्लीय है, समझाइए। 2

Phenol is more acidic than Ethanol, explain.

**9.** यदि 5.6 ग्राम KOH, 500 मिली० विलयन में घुला हो, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 2

If 5.6 gm of KOH dissolved in 500 ml of solution, then what will the molarity of the solution.

**10.** निम्नलिखित का रूपांतर कैसे करेंगे ? 2

(i) प्रोपीन → प्रोपेन – 2 – ऑल

(ii) बेन्जिल क्लोराइड → बेन्जिल एल्कोहॉल

How would you convert the following :

(i) Propene to propan-2 -O1

(ii) Benzyl Chloride to Benzyl alcohol.

**11.** निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए : 3

(i)  $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$

(ii)  $K_3[Fe(CN)_6]$


(iii)  $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$

**3629/(Set : B)**



( 9 )

**3629/(Set : B)**



Write IUPAC names of following coordinate compounds :

**12.** अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि की विवेचना कीजिए। 3

Discuss froth floatation process for the concentration of ores.

**13.** निम्नलिखित के साथ फीनॉल की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए : 3

Write the Equations for the reaction of phenol with the following :

**14.** निम्न पदों को परिभाषित कीजिए : 3**3629/(Set : B)**

P. T. O.

( 10 )

**3629/(Set : B)**

(i) अभिक्रिया की अर्धायु

(ii) संघनन आवृत्ति

(iii) सक्रियण ऊर्जा

Define the following terms :

(i) Half life period of reaction

(ii) Condensation frequency

(iii) Activation energy

**15.** ब्राउनी गति की विवेचना कीजिए। 3

Discuss the Brownian movement.

**16.** निम्न का वर्णन कीजिए :



$$2 \frac{1}{2} \times 2 = 5$$

(i) स्टीफेन अभिक्रिया

(ii) रोजेनमुंड अपचयन

Describe the following :

(i) Stephen reaction

(ii) Rosenmund reduction

अथवा

OR

बेन्जीन को निम्नलिखित में परिवर्तित कीजिए :  $1 + 2 + 2 = 5$

(i) बैन्जैलिडहाइड

**3629/(Set : B)**

(ii) फेनिलऐसीटिक अम्ल

(iii) मेथिल बेन्जोएट

Convert benzene into :

(i) Benzaldehyde

(ii) Phenyl acetic acid

(iii) Methyl benzoate

**17.** (a) निम्न अणुओं की संरचनाएँ रेखित कीजिए :  $2 + 2 + 1 = 5$

(i)  $XeF_2$

(ii)  $BrF_3$

(b) श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस की संरचना का अन्तर लिखिए।

(c)  $H_2O$ ,  $H_2S$ ,  $H_2Te$  व  $H_2Sc$  को बढ़ती हुई अम्लता अनुसार व्यवस्थित कीजिए।

(a) Draw the structures of the following :

(i)  $XeF_2$

(ii)  $BrF_3$

(b) Write the structural difference between white phosphorus and red phosphorus.

(c)  $H_2O$ ,  $H_2S$ ,  $H_2Te$  and  $H_2Sc$  Arrange these in increasing their acidic character.

अथवा

**OR**

निम्न के आधार मूल कारण लिखिए :

$2 + 2 + 1$

( 12 )

**3629/(Set : B)**

- (i)  $PH_3$  की अपेक्षा  $NH_3$  अधिक प्रबल क्षार है।
- (ii)  $F_2$  की बन्ध वियोजन ऊर्जा  $Cl_2$  की बन्ध वियोजन ऊर्जा से कम होती है।
- (iii)  $AsH_3, NH_3, PH_3$  व  $BiH_3$  को बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।

Account for the following :

- (i)  $NH_3$  is a stronger base than  $PH_3$ .
- (ii) Bond dissociation energy of  $F_2$  is less than that of  $Cl_2$ .
- (iii)  $AsH_3, NH_3, PH_3$  p and  $BiH_3$  Arrange these in order of increasing their boiling points.

**18.** पौटेशियम परमेंगनेट बनाने का वर्णन कीजिए। अम्लीय  $KMnO_4$  निम्न के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, आयनिक समीकरण लिखिए। 5

- (i)  $SO_2$
- (ii) ऑक्सैलिक अम्ल
- (iii)  $FeSO_4$



Describe the preparation of potassium permanganate. How does acidified  $KMnO_4$  solution react with :

- (i)  $SO_2$
- (ii) Oxalic acid
- (iii)  $FeSO_4$

Write ionic equations for these reactions.

अथवा

**OR**

- (a) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए : 3
- (i)  $Fe^{2+}$

**3629/(Set : B)**

( 13 )

**3629/(Set : B)**

- (ii)  $Cr$   
(iii)  $Mn^{2+}$
- (b) संक्रमण धातु अतंराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं ? 2
- (a) Write Electronic configurations of :
- (i)  $Fe^{2+}$   
(ii)  $Cr$   
(iii)  $Mn^{2+}$
- (b) Why transition metals form interstitial compounds ?



**3629/(Set : B)**

P. T. O.